



## BANARAS BEADS LIMITED

AN EXPORT HOUSE RECOGNISED BY GOVERNMENT OF INDIA  
CIN No. L01131UP1980PLC004984

AN ISO  
CERTIFIED  
COMPANY

Regd. & : A-1, Industrial Estate,  
Head Office Varanasi - 221106 (INDIA)  
Phones : +91-542-2370161-4 (4 Lines)  
Fax : +91-542-2370165, 2370214  
E-mail : rksingh@banarasbead.com  
investor@bbinvestor.com  
Website : www.banarasbead.com

Manufacturers & Exporters of All kind of Beads, Fashion Jewelry and Accessories.

REF.: BBL/SECT/

August 1, 2025

To,

The BSE Limited  
Department of Corporate Services,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Mumbai - 400001

The National Stock Exchange Of (I) Ltd.,  
Exchange Plaza, 5th Floor,  
Plot No.C/1, G-Block,  
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)  
**Mumbai - 400 051**

**Sub.: Published copy of Un-Audited Financial Results for quarter ended on 30<sup>th</sup> June' 2025 in compliance of Securities and Exchange Board of India (Listing obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015.**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith published copy of Un-Audited Financial Results for quarter ended on 30<sup>th</sup> June' 2025 in compliance of Securities and Exchange Board of India (Listing obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015.

The said result was published in Business Standard (English and Hindi) newspaper on 01.08.2025.

Kindly take the above documents on the records and acknowledge the receipt of the same.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **BANARAS BEADS LIMITED**

**(R.K. SINGH)**  
**COMPANY SECRETARY**

Encl. As above

FCS- 4071

**शेख बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड**  
**Cent Bank Home Finance Limited**  
 शेख बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड Subsidiary of Cent Bank of India

**NOTICE UNDER SECTION 13(2), READ WITH SECTION 13(1) AND 13(1A) OF SARFAESI ACT, 2002 TO BE PUBLISHED IN NEWSPAPER WHEN THE SAME IS RETURNED UNDELIVERED, REFUSED TO ACCEPT AND ACKNOWLEDGE**

A notice is hereby given that the following Borrower/Co-Borrower and Guarantors have defaulted in the repayment of principal and interest of the loan facility obtained by them from the Cent Bank Home Finance Ltd. and the loan have been classified as Non Performing Assets (NPA). The notice was issued to them under section 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of security interest Act 2002 on their last known addresses on the date mentioned below. We have indicated our intention on taking possession of mortgaged Property Owned by following Borrower/Guarantors as per Section 13(4) of the Act in case of your failure to pay the amount mentioned within 60 days. Details are furnished below:

Name of the Applicant, Co-Aplicant, Guarantor & LKN	Description of the Property	Date of NPA	Outstanding Amount (₹)
Mr. Surendra Pal S/o Mr. M. Mahadev, Mrs. Neelam Pal W/o Mr. Surendra Pal LAK: 0104001001314	House Built on Khara No.202 Mini, Grant Shohar (Bhramaji), Ward, Haiderganj, Lucknow. Property in the Name of Mrs. Neelam Pal W/o Mr. Surendra Pal. Area 53.76 sq.ft., Boundaries: East: 15 ft. Wide Road; West: 15 ft. Wide Road; North: 15 ft. Wide Road; South: 15 ft. Wide Road.	16.07.2025	18,68,737/-
Mr. Shiva Kant Tripathi S/o Mr. Suraj Mani Tripathi, Mrs. Shashi Tripathi, W/o Mr. Shiva Kant Tripathi LAK: 010022000445	House No.53-M EWS, Vidhyawati Devi Nagar, Sector M-1, Kanpur Road, Noida, Lucknow. Property in the Name of Mr. Shiva Kant Tripathi S/o Mr. Suraj Mani Tripathi, Area 30 sq. mtr., Boundaries: East: House No.70, West: 3 Meter Wide Road, North: House No. 94, South: House No. 99	16.07.2025	19,16,921/-
Mr. Ramesh Giri S/o Mr. Kanhaiya Lal, Mr. Som Giri S/o Mr. Ramesh Giri LAK: 01003010000051	Plot No. 46, Part of K0 No.194, Takohi Ward- Sahdeo Bhagat Singh, Tehsil & District Lucknow, Property in the name of Mr. Ramesh Giri S/o Mr. Kanhaiya Lal, Area 1600 sq.ft., Boundaries: East: 15 ft. Wide Road; West: Plot No.45, North: 15 ft. Wide Road, South: Plot No. 12	30.06.2025	15,67,659/-

The steps are being taken for substitution service of notice. The above Borrower/Co-Borrower and Guarantors (wherever applicable) are hereby called upon to make payment of outstanding amount within 60 days from the date of Publication of this notice. Failing which further steps will be taken after expiry of 60 days from the date of this notice under sub-section (4) of Section 13 of Securitization and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002.

Place: Lucknow, Date: 31.07.2025  
 Authorized Officer, Cent Bank Home Finance Ltd., Lucknow  
 Branch: D-2/55/56/57, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow (UP)-226010, website: www.cbhfl.com

**GREENPLY INDUSTRIES LIMITED**  
 Registered Office : Madgul Lounge, 6th Floor, 23 Chetla Central Road, Kolkata - 700 027, West Bengal  
 Phone: (033) 3051 5000, E-mail: Investors@greenply.com, Website: www.greenply.com, CIN: L20211WB1990PLC268743

### NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that, Greenply Industries Limited ("Company") has on 31st July, 2025, sent the notice dated 28th April, 2025 electronically, to the eligible members of the Company, along with the Annual Report for the Financial year 2024-25, in respect of 35th Annual General Meeting ("AGM") of the Company scheduled to be held on Monday, 25th August, 2025 at 10:30 a.m. Indian Standard Time ("IST"), through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC / OAVM") in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April 2020, 17/2020 dated 12th April 2020, 20/2020 dated 5th May 2020 and 09/2024 dated September 19, 2024 and other Circulars issued from time to time in this respect (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 read together with Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023, SEBI/HO/CFD/CFD/CFD/2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/HO/CFD/CFD/CFD/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CFD/2020/79 dated May 12, 2020, and other applicable circulars (collectively referred to as "SEBI Circulars"), to transact the business(es) as set out in the said notice of the 35th AGM.

The Dividend of Rs.0.50/- per equity share of face value of Re.1/- each recommended by the Board, and if approved by the members at the ensuing AGM will be credited/dispensed within 15 days from the date of Annual General Meeting to the eligible members, whose names appeared in the Register of Members/Share of Beneficial Owners at the close of working hours on 4th August, 2025 ("Record Date"), as per the details available with Company's RTA and/or furnished by the depositories for this purpose.

As per section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to offer the Remote e-voting facility (i.e. voting electronically from a place other than the venue of the AGM) and e-voting at the AGM to all the eligible members of the Company to cast their votes by electronic means on all the resolutions set out in the said notice.

The details required under the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, are given below:

- The annual report for the financial year 2024-25 along with the Notice convening 35th Annual General Meeting have been sent electronically on 31st July, 2025 to the eligible Members who have registered their e-mail addresses with the Company/Company's RTA/Depository Participant. Physical copy of the aforesaid documents are not being sent to the shareholders in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars. The aforesaid documents are also available on the website of the Company at [www.greenply.com/investors](http://www.greenply.com/investors) and on the website of Stock Exchanges i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)
- Pursuant to Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a letter providing the web-link including the exact path where complete details of the Annual Report is available has been sent to those shareholder(s) whose email id is not registered.
- The Company has engaged the services of CDSL to provide electronic voting facility (remote e-voting and e-voting in the Meeting) to the eligible members of the Company to enable them to cast their votes electronically.
- The remote e-voting period will commence on August 21, 2025 at 10:00 a.m. (IST) and end on August 24, 2025 at 5:00 p.m. (IST). During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. August 18, 2025, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL upon expiry of aforesaid period. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.
- A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. August 18, 2025 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the Annual General Meeting.
- The voting rights of the members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. August 18, 2025.
- The details of manner of voting including generation of login ID and password have been provided under Note No.- 39 of the AGM notice dated April 28, 2025. Pursuant to the requirement of SEBI, e-voting is enabled for the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts on the websites of Depositories/Depository Participants. The EVSN allotted by CDSL for electronic voting is 250729017.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date, may refer the instructions for shareholders given in the AGM notice, regarding login ID and password. The AGM notice is available on the website of the Company, i.e. [www.greenply.com/investors](http://www.greenply.com/investors) and also on the website of CDSL i.e. [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and on the website of Stock Exchanges i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)
- The facility of voting through e-voting system will be provided at the AGM. Members attending the meeting and who have not casted their vote earlier by remote e-voting shall be able to vote at the meeting through e-voting system.
- Member can participate in the Annual General Meeting even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the meeting.
- Once a vote on a resolution is cast by the member by remote e-voting, he shall not be allowed to modify the same or cast vote again in the Meeting.
- Mr. Dilip Kumar Sarawagi [bearing COP No.: 3090], Practicing Company Secretary, Proprietor of M/s. DKS & Co. [bearing Unique Code: S1990WB007300] of 173, M. G. Road, 1st Floor, Kolkata - 700 007 has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.
- The Scrutinizer shall after the conclusion of e-voting at the AGM, will download the votes cast at the AGM and the votes cast through the remote e-voting and shall make a consolidated scrutinizer's report and such Report shall then be sent to the Chairman or any other person duly authorised in this regard by him, within 2 (two) working days from the conclusion of the AGM, who shall then countersign and declare the result of the voting forthwith. The Results declared along with the report of the scrutinizer shall be placed on the Company's website [www.greenply.com/investors](http://www.greenply.com/investors) and also be displayed on the Notice Board of the Company at its Registered Office and on the website of CDSL immediately after the declaration of result and simultaneously communicated to the Stock Exchanges.
- Detailed process and manner of casting of votes are provided in the Notice of the AGM sent to the members along with Annual Report for the financial year 2024-25.
- Subject to receipt of the requisite number of votes, the resolutions shall be deemed to be passed on the date of the Annual General Meeting i.e. 25th August, 2025.
- Members having any queries or issues regarding e-voting, may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and user manual for shareholders of corporate shareholders available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com), under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call at 18002109911. The members may even write to Company's Registrar and Share Transfer Agents, M/s. S. K. Infosolutions Pvt. Ltd., D/42, Katju Nagar Colony, Ground Floor, Near South City Mall, PO & PS - Jadaipur, Kolkata, West Bengal-700032, Phone: (033) 2412-0027/0029, email: [skcdtlp@gmail.com](mailto:skcdtlp@gmail.com) or Mr. Kaushal Kumar Agarwal, Company Secretary & Vice President-Legal at "Madgul Lounge", 23 Chetla Central Road, 6th Floor, Kolkata - 700 027, Phone: (033) 3051 5000; email: [investors@greenply.com](mailto:investors@greenply.com) regarding the grievances connected with voting by electronic means.

For Greenply Industries Limited

Place: Kolkata  
 Dated: 31.07.2025  
 Kaushal Kumar Agarwal  
 Company Secretary & Vice President-Legal

**BANARAS BEADS LIMITED**  
 (An export House Recognised by Government of India)  
 Regd. & Head Office : A-1 Industrial Estate, Varanasi-221106  
 Ph : 0542-2370161-64(4lines) E-mail : [rsingh@banarasbead.com](mailto:rsingh@banarasbead.com), [investor@bbinvestor.com](mailto:investor@bbinvestor.com)

**Extract of Statement of Stand Alone UnAudited Financial Results for the Quarter ended 30th June 2025 (Rs. in lacs)**

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended 30.06.2025	Quarter Ended 30.06.2024	Year Ended 31.03.2025
1.	Total Income from Operations	Un-Audited	Un-Audited	Audited
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax Exceptional and/or Extraordinary items)	79.99	71.91	405.28
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	79.99	71.91	405.28
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	60.99	53.91	308.81
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	60.99	53.91	308.81
6.	Equity Share Capital	661.42	661.42	661.42
7.	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	4922.80	4762.58	4762.58
8.	Earning Per Share (of Rs.10/- each) Basic & Diluted	0.92	0.81	4.65

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial result filed with stock exchanges under Regulation 33(3) (c) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015 as amended and prepared in accordance with IND AS.  
 2. The full format of Quarterly Financial Result are available on the Bombay Stock Exchange website (URL : [www.bseindia.com/corporates](http://www.bseindia.com/corporates)), the National Stock Exchange website (URL : [www.nseindia.com/corporate](http://www.nseindia.com/corporate)) and on the Company's website (URL : [www.bbinvestor.com](http://www.bbinvestor.com))  
 3. Corresponding figures in previous year / period have been regrouped wherever considered necessary.

By order of the Board  
 For BANARAS BEADS LTD.  
 (ASHOK KUMAR GUPTA)  
 Chairman & Managing Director  
 DIN:00116661

Date : 31.07.2025  
 Place : VARANASI

**JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED**  
 Corporate Identity Number: U74140MH1984PLC033397  
 Regd. Office : 7th Floor, Chirag, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025.  
 Tel. No.: +91 22 6630 3030 - Fax No.: +91 22 6630 3223 - Website: [www.jmfinancialproducts.com](http://www.jmfinancialproducts.com)

**STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025**  
 (₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2025 (Unaudited)	Quarter ended June 30, 2024 (Unaudited)	Year ended March 31, 2025 (Audited)
1	Total income from operations	115.26	219.23	702.30
2	Net profit for the period / year (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	40.78	71.37	223.20
3	Net profit for the period / year before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	40.78	71.37	223.20
4	Net profit for the period / year after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	32.44	60.35	162.88
5	Total comprehensive income for the period / year [comprising profit / (loss) for the year (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	32.53	60.27	162.93
6	Paid up equity share capital	544.50	544.50	544.50
7	Reserves (excluding revaluation reserve)	2,037.24	2,059.95	2,004.71
8	Securities Premium Account	38.23	38.23	38.23
9	Net worth	2,581.74	2,604.45	2,549.21
10	Outstanding debt	2,450.02	3,986.65	2,452.35
11	Outstanding redeemable preference shares	-	-	-
12	Debt equity ratio	0.95	1.53	0.96
13	Earnings per equity share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
	(i) Basic EPS (₹) (*Not Annualised)	*0.60	*1.11	2.99
	(ii) Diluted EPS (₹) (*Not Annualised)	*0.60	*1.11	2.99
14	Capital reserved reserve (# ₹ 1,000/-)	#0.00	#0.00	#0.00
15	Debtenture redemption reserve			
16	Debt service coverage ratio		Not applicable	
17	Interest service coverage ratio			

Notes: 1. The above unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2025 have been reviewed by the Audit Committee and, on its recommendation, have been approved by the Board of Directors at its meeting held on July 31, 2025. The said results have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company, who have issued an unmodified report thereon.  
 2. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed with the BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) (collectively referred as Stock Exchanges) under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR). The full format of said unaudited financial results are available on the website of BSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), NSE at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the website of the Company at [www.jmfinancialproducts.com](http://www.jmfinancialproducts.com).  
 3. The other details required under Regulation 52(4) of the SEBI LODR have been submitted to Stock Exchanges and can be accessed at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

For and on behalf of the Board of Directors of  
**JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED**  
 VP Shetty  
 Chairman  
 DIN: 00021773

Place: Mumbai  
 Date: July 31, 2025

**YES BANK**  
 Registered & Corporate Office:  
**YES BANK Limited: YES BANK House, Off Western Express Highway, Santacruz (E), Mumbai - 400055, India. Tel: +91 (22) 5091 9800 / +91 (22) 6507 9800**  
 Fax: +91 (22) 2619 2866 | Website: [www.yesbank.in](http://www.yesbank.in)  
 Email: [stress.management@yesbank.in](mailto:stress.management@yesbank.in) | CIN: L65190MH2003PLC143249

### INVITATION OF EXPRESSION OF INTEREST FOR PARTICIPATION IN SALE OF STRESSED LOANS

**YES BANK Limited ("Bank")** invites Expression of Interest ("EOI") for inviting bids in the proposed sale of the below mentioned stressed loan exposure(s) of the Bank (on a portfolio basis) over and above the identified base reserve price of Rs. 69.73 Crores (Rupees Sixty Nine Crores and Seventy Three Lakhs) of the Bank in terms of the extant guidelines of Reserve Bank of India under a Swiss Challenge Auction Method ("Sale Process"). The stressed loan exposure(s) are being offered for sale on a "100 % upfront cash basis".

Portfolio level Product Mix	Principal Outstanding (Rs. in Cr) as on July 20, 2025	Average Write-off Vintage
Wheels (Secured Loan)	268.92	Above 18 months
Personal Loan (Unsecured Loan)	301.02	Above 12 months
Business Loan (Unsecured Loan)	71.02	Above 12 months
Credit Card (Unsecured Loan)	115.71	Above 12 months
<b>Total (at Portfolio level)</b>	<b>756.67</b>	

\* The stated outstanding is as on the date mentioned above and may vary at the time of actual sale.

Eligible interested applicants, basis formal process, may seek access to the bid document, on the following link of the Bank's website <https://www.yesbank.in/about-us/media/auction-property/sale-npa-portfolio>, or the same may be obtained by sending an email to [stress.management@yesbank.in](mailto:stress.management@yesbank.in) mentioning "Sale of Retail portfolio - EOI Advertisement dated August 01, 2025" as the subject line. The eligible interested applicants shall submit their EOI along with a duly signed and adequately stamped Non-Disclosure Agreement (formats prescribed in the bid document) on or before 5:00 p.m. of August 08, 2025, post which access to the data room may be provided as per terms of the bid document. This invitation of EOI is subject to the terms of the bid document and the selection of the anchor bid will be governed by the terms of the bid document.

The sale is on "as is where is", "as is what is", "whatever there is", and "without recourse" basis to the Bank. The Bank reserves the right to modify, alter, and/or amend the terms of the Sale Process and the bid document including the prescribed timelines, and/or to cancel the Sale Process at any stage and/or accept or reject any EOI, with or without assigning any reason thereof (which decision will be final, binding and conclusive), without any liability to any person whatsoever.

Place: Mumbai  
 Date: August 01, 2025

Resolution and Recoveries

### Notice of Loss of Share Certificates

Notice is hereby given that the following share certificate(s) issued by the company are stated to have been lost or misplaced or stolen and the registered holder / the legal heirs of the registered holders thereof have applied to the company for issue of replacement share certificate(s) of Gram Industries Limited.

Folio No.: 052730, No. of Share 190, Certificate Nos. 3097491 Distinctive No. 445223126 to 445223135- 190 Share, Name of registered holder-Anurag Srivastava Add. 273-C Block Swarni Nagar Panki, Panki Bahadur Nagar Kanpur, U.P.-208020

The public are hereby warned against purchasing or dealing in any way, with the above share certificates. Any person(s) who has/have any claim(s) in respect of the said share certificate(s) should lodge such claim(s) with the company at its registered office at the address given above within 15 days of publication of this notice, after which no claim will be entertained and the company will proceed to issue duplicate share certificate.

For Gram Industries Limited  
 Add.-Biragram, Nagda, 456331  
 Dist. Ujjain, Madhya Pradesh (India)

**HDFC BANK**  
 We understand your need.

**POSSESSION NOTICE (for immovable property) Issue R11**  
 Whereas, the undersigned being authorized officer of HDFC BANK LIMITED having its Registered Office at Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Panel, Mumbai - 400 073 and having one of its office at HDFC Bank Limited, Department for Special Operations, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 2 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice on 31.03.2025 u/s 13(2) of the captioned Act, calling upon the 1. M/s Anand Autotech Pvt Ltd through its director Shri Anand Kumar Singh having its registered office at 3211, Vijayant Khand, Gomti Nagar Faizabad Road Lucknow, also at CP-15, Vijayant Khand, Gomti Nagar, Faizabad Road Lucknow 2. Shri Anand Kumar Singh son of Shri Ragunath Bahadur Singh resident of C-392, KD Singh Babu Road, Shanti Niketan, Civil Line Nawaganj Barabanki, Uttar Pradesh 3. Smt. Namita Singhwasi of Shri Anand Kumar Singh resident of C-392, KD Singh Babu Road, Shanti Niketan, Civil Line Nawaganj Barabanki, Uttar Pradesh to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 1,20,81,288/-Rupees Six Crore Twenty Lac Eighty-one Thousand Two Hundred Eighty-Eight Only) in as on 31.03.2025 together with interest therein within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower, guarantor(s) and mortgagor(s) have failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower guarantor(s) and mortgagor(s) and the public in general that the undersigned being the Authorized Officer of HDFC Bank Limited has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with rule 6 of the said rule on the 28 day of July of the year 2025. The borrower, guarantor(s) & mortgagor(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the below mentioned property and any dealings with the property will be subject to the charge of the HDFC Bank Limited for an amount mentioned above together with interest thereon. The Borrower(s)/Mortgagor(s) attention is invited to provisions of sub-section (b) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of immovable property	Owned by
Khanna No. 1550, 1540 & 1545 situated at Village Laksar Bagh Pargana, Mr. Anand Kumar Singh Pratapnagar Tehsil Nawaganj District Barabanki.	Mr. Anand Kumar Singh


DATE:- 28-July-25, Place: Barabanki  
 Authorised Officer, HDFC Bank Ltd.

**Market wisdom, straight from the sharpest minds in the game.**

Cut through the noise every day with expert columns that decode trends before they unfold, only in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email [order@bsmail.in](mailto:order@bsmail.in)

**Business Standard**  
 Insight Out



## संक्षेप में

## आर्सेलरमिस्तल का

## मुनाफा 3 गुना से ज्यादा

इस्पात और खनन क्षेत्र की वैश्विक कंपनी आर्सेलरमिस्तल को अप्रैल-जून तिमाही में शुद्ध लाभ तीसरी गुना से अधिक करके 179.3 करोड़ डॉलर पहुँच गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से असाधारण मदों के कारणात्मक प्रभाव के कारण है। लक्ष्यमार्थ सितार कंपनी ने गुवाकरी को जून तिमाही, 2025 के इस वित्तीय ताली की घोषणा की। पिछले साल की समान तिमाही में इसने 50.7 करोड़ डॉलर का शुद्ध लाभ कमाया था। आर्सेलरमिस्तल की भारत में मौजूदगी एएमएनएस् इंडिया के रूप में है जो उसका निर्माण स्टील के संयंत्र संपन्न उपक्रम है।

## जेएसडब्ल्यू एनर्जी का लाभ 42 प्रतिशत बढ़ा

जेएसएडब्ल्यू राजीव का पैंकैक्टिक शुद्ध लाभ चालू बिक्र वकरी को अप्रेल-जून तिमाही में 42 प्रतिशत बढ़कर 743 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने बताया कि नवीकरणीय सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ने और ओ2 पावर एवै महानदी संयंत्र से भी पोलिगन जुड़ने के कारण उसका मुनाफा बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष वसमान तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 522 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी ने आगामी में कहा कि पहली तिमाही में उसकी कुल आयद्वारा 78 प्रतिशत बढ़कर 5,411 करोड़ रुपये हो गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही से 3,043 करोड़ रुपये थी।

बीएस संवाददाता

चेन्नई/मुंबई/नई दिल्ली, 31 जुलाई

देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी  
मारुति सुजुकी इंडिया ने वित्त वर्ष  
2025-26 की पहली तिमाही के दौरान  
अपने समेकित शुद्ध लाभ में 0.8 प्रतिशत की  
मामूली वृद्धि दर्ज की है और यह 3,792.4  
करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि  
में यह 3,759.7 करोड़ रुपये था। हालांकि छोटी  
कारों की बिक्री में लगातार गिरावट और शहरी  
बाजारों में कमजोर मांग के कारण घरेलू बिक्री में  
गिरावट आई। लेकिन नयायों में 37 प्रतिशत की  
वृद्धि ने इसकी भरपाई कर दी।

अपेल-जुन तिमाही में कंपनी की कुल आय 40,493 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले की समान तिमाही में हुई 36,840 करोड़ रुपये की आय के मुकाबले। 10 मई 2018 अंशिक रही। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी की कुल विक्री 5,27,861 वाहन रही जिसमें से पेरुलु विक्री की हिस्सेदारी लगभग 4,30,889 और निर्यात की हिस्सेदारी 96,972 वाहन रही। मारुति सुजुकी इंडिया के चार्ल्स कार्याकारी निदेशक (कोर्पोरेट मामलों) वॉल्ट भारती ने कहा, 'छिछले साल की तुलना में पेरुलु विक्री में करीब 4.5 प्रतिशत की गिरावट की बरपाई निर्यात में 37.4 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि से हुई, जिसके परिणामस्वरूप तिमाही के लिए कुल विक्री में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।'

दिलचस्प यह है कि तिमाही के दौरान उद्योग के निर्यात में 2.1 प्रतिशत तक की गिरावट आई



लेकिन भारत सुजुकी के निर्यात में हुए इजाफे ने उद्योग को तिमाही के दौरान 13 प्रतिशत की बेहतर वृद्धि हासिल करने में मदद की, जिससे कुल उद्योग में कंपनी की निर्यात हिस्सेदारी 47 प्रतिशत हो गई। विदेशों में कंपनी की बिक्री में जापान के बाजार ने बेहतर प्रदर्शन किया, जो यात्री वाहन क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी के लिए तेजी से दूसरा निर्यात मंत्र्य बन गया। ज्यादा जानकारी एिए बिना भारती ने कहा कि कंपनी इस वित्त वर्ष में दो नई एम्सूवी उतारने की योजना बना रही है।

बिक्री दर्ज की। निर्यात सहित कुल दोपहिया औषधि तिपहिया वाहनों की बिक्री में 17 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। जून 2025 को समाप्त तिमाही में 12.7 लाख वाहन बिक्री दर्ज की गई, जबकि जून 2024 को समाप्त तिमाही में 11 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की गई थी।

## आयशर मोटर्स के लाभ में 9 प्रतिशत की तेजी

राष्ट्रिय एमपीएड मोटरसाइकल बनाने वाले कम्पनी रायल एमपीएड मोटो ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान संकेतित शुद्ध लाभ में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई है और यह 1,205 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 1,101 करोड़ रुपये था। कंपनी ने पर्यावरण से अग्रणी और की संवर्द्धन पहली तिमाही की ओर बढ़ा 5,042 करोड़ रुपये दर्ज की, जो वित्त वर्ष 2024-25 की इसी तिमाही के 4,393 करोड़ रुपये की तुलना में 14.8 प्रतिशत अतिरिक्त है। एंबिज फ़्यूरेल वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 1,165 करोड़ रुपये की तुलना में 3.2 प्रतिशत बढ़कर 1,203 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही के दौरान, रायल एमपीएड ने 261,326 मोटरसाइकिलों की बिक्री दर्ज की, जो वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में बेची गई 227,736 मोटरसाइकिलों की तुलना में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

## टीवीएस मोटर का

## लाभ 32 प्रतिशत बढ़ा

विवरण के अनुसार 2025-26 की पहली तिमाही में दौरान शुद्ध लाभ में 610 करोड़ रुपये के साथ 37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह लाभ 461 करोड़ रुपये रहा था। अब तक की सर्वाधिक तिमाही बिक्री की बदौलत यह इजाफा हुआ। कंपनी ने अप्रैल से जून तिमाही के दौरान परिचालन से 12,210 करोड़ रुपये का राज्यस्त अर्जित किया जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 10,314 करोड़ रुपये के मुकाबले 18 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान कंपनी ने अब तक की सबसे अधिक तिमाही

## परिसमापन मामला

## सर्वोच्च न्यायालय ने वापस लिया आदेश

भाविनी मिश्रा  
नई दिल्ली, 31 जुलाई

**सर्वोच्च** न्यायालय ने भूषण स्टील एंड पा  
लिमिटेड (बीएसपीएल) के परिसमापन न  
आदेश वाला 2 मई का अपना फैसला गुरुव  
को वापस ले लिया। शीर्ष अदालत ने 2  
को बीएसपीएल के कर्ज समाधान के लि  
गैरसहज स्टील की ओर से पेश प्रस्ताव  
गैरकानूनी ठहराने के साथ ही उसे खारिज क  
दिया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई अ  
न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा के पीठ ने 2 मई  
फैसले की समीक्षा को मंजूरी दी और समग्र ध  
योजना को चुनौती देने वाली अपील पर न  
रिसे से सुनवाई करने का फैसला किया। प  
अब अगले गुरुवार यानी 7 अगस्त को स  
दलीलें पर सुनवाई करेगा। पीठ ने कहा, 'प्र  
दृष्ट्या हमारा मत है कि विवादित निर्णय  
विधिक स्थिति पर सही ढंग से विचार न  
किया गया है।'

न्यायालय ने कहा, 'यह मामला पिछले नियंत्रण को वापस लिए जाने के लिहाज एकदम माकूल है और जमाने की नए सिरे सुनवाई की जानी चाहिए। इसलिए यह कहना कि जरूरत नहीं है कि हम समीक्षा को इजाजत दे रहे हैं। हम सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को जरूरी सुवातों पर बहस करेंगे।'

मुख्य न्यायाधीश गर्वा ने कहा, 'प्रत्येक दृष्ट्या, हम पुनर्विचार की अनुमति देने के लिए हैं।' हम पूरी सुनवाई करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि यह दृष्टिकोण पहले दिए गए निर्णयों के अनुरूप नहीं है। हम किसी अदस्तावेज पर विचार नहीं करेंगे, केवल निर्णय पर ही विचार करेंगे।'

उन्होंने यह भी कहा कि न्यायमूर्ति सत्यनंद चंद्र शर्मा (2 मई का फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों में से एक) भी पुनर्विचार के लिए



सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा, 'कल मेरी न्यायमूर्ति शर्मा से चर्चा हुई और उन्होंने भी पूरी उदारता से स्वीकार किया कि फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

मुख्य न्यायाधीश ने जोर दिया कि जेएसडब्ल्यू द्वारा किया गया करीब 20,000 करोड़ रुपये का निवेश तथा इससे करीब 25,000 श्रमिकों को आजीविका जैसे जमीनी हकीकों पर भी विचार किए जाने की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की,

‘हमें जमीना हकीकतों को भी ध्यान में रखना होगा। 25,000 लोगों को हम सड़क पर नहीं छोड़ सकते हैं। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल 25,000 मजदूरों के साथ अन्याय करने के लिए नहीं, बल्कि पूरा न्याय करने के लिए किया जाना चाहिए।’

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने की अनुमति देता है।

उल्लेखनीय है कि दो मई को शीर्ष अदालत ने जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड की तरफ से बीएसपीएल के लिए दी गई समाधान योजना को अवैध ठहराते हुए खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने बीएसपीएल के सभी पक्षकारों- समाधान पेशेवर, सीओसी और एनसीएलटी की आलोचना करते हुए कहा था कि समाधान प्रक्रिया में दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का 'घोर उल्लंघन' हुआ है।

## मोटर्स जुटाएगी 1 अरब यूरो

गणिच्छिक् वलहन की दिशान्तरण कम्पनी (राइसस गनिमिं त निशकशर) के अरब युरो जुटाने ला रही है। इसके दिशान्तरण कम्पनी पुनः काट फैलतल में भुनाना कर रही है। युरो (38,000 ऋण को बुकने में गजिसका इरेसमाला युरोप गणिच्छिक् वलहनो कसमह को करेगी। इस बीच, कम्पनी भारत और अन्य जल्लं देशा मोटरस की हल्ला वलहनो के दिशान्तरण और लैटिन्ड अमेरिका के मेजबान वलजारों में उलारा करेगी।

कूल मिशालर 2.2 ल युरो (22 अरब युरो) है। राजस्व और 5.4 लख वलहानों को बिक्री के हल्ला इन्को को पिलस्य भारो के से करिये 50 फिलर, भारो 35 फांसीदी और लैटिन्ड अर 15 फांसीदी राजस्व और 10 सौ भारो में वैशिश्वर नल जाणगी। फिलर अलवाव अमेरिका, पुरियाय और अर

बाजनों में भी उध्वस्थित साँगा।  
सौरे की संभावना पर बुधवार को  
टाटा मसाला का शेयर 3.4 फीसद  
लुकस याता की कंपनी के समूह मुख्य  
वित्त अधिकारी पीवी बल्लाह ने  
ने गुव्वार को निश्चयकों की चिंताओं को  
दूर करते हुए अग्रे 12 मई 18 महीनों  
के दौरान कम जुटने की कर्णनित के  
वत में बताया। गुरुवार को शेयर में  
कोई सख्त बलवान नहीं आया और  
ब्रॉड ट्रेडिंग एक्सचेंज में (घोषणा) पर  
3.05 फीसद पीछे लुकसक बंद हुआ।  
बाजों ने कहा, "हमने डॉनर की  
की घोषणा करते बलवान को काया कि  
हम वार्णिज्यिक सहन की करारवा  
शुक्र कोगे। इसे शीघ्र स्तर पर ले  
जाने अगला शुक्र कसम है।"

[illegible]



**सेन्ट बँक होम फायनेन्स लिमिटेड**  
**Cent Bank Home Finance Limited**

सहकारी वित्तिय संस्था (२०५२) च्या अधिनियमाखाली  
 Registered as a Co-operative Society (2052) under the Co-operative Societies Act

सहकारी वित्तिय संस्था (२०५२) च्या अधिनियमाखाली  
 Registered as a Co-operative Society (2052) under the Co-operative Societies Act

**सहकारी वित्तिय संस्था (२०५२) च्या अधिनियमाखाली**  
**Registered as a Co-operative Society (2052) under the Co-operative Societies Act**

**सहकारी वित्तिय संस्था (२०५२) च्या अधिनियमाखाली**  
**Registered as a Co-operative Society (2052) under the Co-operative Societies Act**


**सहकारी वित्तिय संस्था (२०५२) च्या अधिनियमाखाली**  
**Registered as a Co-operative Society (2052) under the Co-operative Societies Act**

**अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष, कार्यकारी कायदा पदा**

**सहकारी वित्तिय संस्था (२०५२) च्या अधिनियमाखाली**  
**Registered as a Co-operative Society (2052) under the Co-operative Societies Act**

**सहकारी वित्तिय संस्था (२०५२) च्या अधिनियमाखाली**  
**Registered as a Co-operative Society (2052) under the Co-operative Societies Act**

**सहकारी वित्तिय संस्था (२०५२) च्या अधिनियमाखाली**  
**Registered as a Co-operative Society (2052) under the Co-operative Societies Act**



**BBNL®**  
ESTD. 1940

# BANARAS BEADS LIMITED

(An export House Recognised by Government of India)

(An ISO Certified Company)

**Regd. & Head Office : A-1 Industrial Estate, Varanasi-221106**

Ph : 0542-2370151-64 (4lines) E-mail : [rsk Singh@banarasbead.com](mailto:rsk Singh@banarasbead.com), [investor@bbnlinvestor.com](mailto:investor@bbnlinvestor.com)

(CERTIN IN BANARAS23251\_120)  
 (IN NO. G/171/19/2019)


**Extract of Statement of Stand Alone UnAudited Financial Results for the Quarter ended 30th June 2025(Rs. in Lakhs)**

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended
		30.06.2025	30.06.2024	31.03.2025
		Un-Audited	Un-Audited	Audited
1.	Total Income from Operations	620.84	707.70	3156.32
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax Exceptional and/or Extraordinary items)	79.99	71.91	405.28
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	79.99	71.91	405.28
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	60.99	53.91	308.81
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	60.99	53.91	308.81
6.	Equity Share Capital	661.42	661.42	661.42
7.	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	4922.80	4762.58	4762.58
8.	Earning Per Share (of Rs.10/- each) Basic & Diluted	0.92	0.81	4.65

**Notes: 1.** The above is an extract of the detailed format of unaudited financial result filled with stock exchanges under Regulation 33(3) (c) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015 as amended and prepared in accordance with IND AS.

**2.** The full format of Quarterly Financial Result are available on the Bombay Stock Exchange website (URL : [www.bseindia.com/corporates](http://www.bseindia.com/corporates)), the National Stock Exchange website (URL : [www.nseindia.com/corporate](http://www.nseindia.com/corporate)) and on the Company's website (URL : [www.bbnlinvestor.com](http://www.bbnlinvestor.com)).

**3.** Corresponding figures in previous year / period have been regrouped wherever considered necessary.



For BANARAS BEADS LTD.  
Sd/-  
**(ASHOK KUMAR GUPTA)**  
Chairman & Managing Director

Date : 31.07.2025

[illegible]